



वॉशिंगटन डीसी में स्थित नेशनल व्हिसलब्लोअर सेंटर व्हिसलब्लोअर कानून के क्षेत्र में अग्रणी एनजीओ है। हम 30 साल से अधिक समय से व्हिसलब्लोअर्स को संरक्षण देने और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करते रहे हैं।

व्हिसलब्लोअर कौन होता है?

व्हिसलब्लोअर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भ्रष्टाचार, सरकारी अधिकारियों की रिश्वतखोरी, वन्यजीव अपराध, या कानून के अन्य उल्लंघनों की सूचना अक्सर अपने निजी जोखिम पर उचित प्राधिकारियों को देता है। कुछ कानूनों के अंतर्गत, एनजीओ को भी "व्हिसलब्लोअर्स" माना जाता है।



व्हिसलब्लोअर्स वन्यजीव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली बल हैं!

हाल के वर्षों में, वन्यजीव अपराधों में खासी बढ़ोतरी हुई है, जो कई देशों की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा बन गई है।

बहुत कम गिरफ्तारियों और सजाओं के कारण वन्यजीव तस्करी अरबों डॉलर वाला उद्योग है।

अंदरूनी जानकारी वाले व्हिसलब्लोअर्स को प्रोत्साहित करा वन्यजीव अपराधों का पता लगाने के काम में क्रांति ला देगा, प्रभावी कानून प्रवर्तन और स्व-अनुपालन को बढ़ाएगा, तथा विलुप्त होने के संकट को उलट देगा।

वन्यजीव अपराध साक्ष्य सूचित करना

अगर आपको गलत कामों और उन दस्तावेजों की सीधी जानकारी है जो गैरकानूनी गतिविधियों की पुष्टि करते हैं, तो आप वन्यजीव अपराध को लेकर सचेत कर सकते हैं।

आप जिस वन्यजीव अपराध को देखते हैं, उसके साक्ष्यों को एकत्र और व्यवस्थित करना बेहद महत्वपूर्ण है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से उन टिप्स की जांच करने की संभावना अधिक होती है, जिनके समर्थन में ठोस सबूत होते हैं:



- फोटोग्राफ
- ई-मेल
- बिजनेस कार्ड्स
- वैज्ञानिक रिपोर्ट्स
- बिलिंग रिकॉर्ड्स
- बजट और वित्तीय डेटा
- आंतरिक रिपोर्ट्स
- मीटिंग नोट्स
- वीडियो और रिकॉर्डिंग्स
- वैज्ञानिक परीक्षण परिणाम
- ट्रांजिट रूट्स और परिवहन विधियां

- बैंक खाता जानकारी
- रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग का साक्ष्य

जिनके पास किसी भी देश के वन्यजीव संरक्षण कानूनों की जानकारी है, ऐसे व्यक्तियों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि यह सुनिश्चित कराने के लिए वैधानिक प्रतिनिधित्व की मांग करें कि उनकी जानकारी का इस्तेमाल सुरक्षापूर्वक किया जाता है।

व्हिसलब्लोअर्स के लिए पुरस्कार

अंतर्राष्ट्रीय व्हिसलब्लोअर्स को अमेरिकी पुरस्कार कानूनों को तहत विदेशी अधिकारियों की रिश्वत की सूचना देने के लिए 30 मिलियन डॉलर से अधिक मिल चुके हैं।

अमेरिकी सरकार ने 31.8 मिलियन डॉलर से अधिक राशि का भुगतान उन गैर-अमेरिकी व्हिसलब्लोअर्स को किया है जिन्होंने उच्च समुद्रों में महासागरीय प्रदूषण की सूचना दी है।

NWC का ग्लोबल वाइल्डलाइफ व्हिसलब्लोअर प्रोग्राम तस्करी तथा अन्य वन्यजीव अपराधों की सूचना देने के लिए अंदरूनी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लेसी एक्ट, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट, और फाल्स क्लेमस एक्ट जैसे कानूनों के व्हिसलब्लोअर प्रावधानों का उपयोग करता है।

व्हिसलब्लोअर्स के लिए पुरस्कार और संरक्षण

वन्यजीव अपराधों से लड़ने के लिए तैयार किए गए कई ऐसे मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय रूप से लागू होने वाले कानून हैं, जिनमें सशक्त व्हिसलब्लोअर पुरस्कार प्रावधान समाहित हैं।

ये पुरस्कार कानून दुनियाभर के उन व्हिसलब्लोअर्स को सहायता देता है जो जानवर, मछली, पौधे और संकटग्रस्त प्रजातियों को या तो अमेरिका में लाने या फिर अमेरिकी व्यक्तियों अथवा अमेरिका से जुड़ी कंपनियों द्वारा अवैध हार्वेस्टिंग, तस्करी और आयात से संरक्षण देने वाले प्रमुख वन्यजीव कानूनों के उल्लंघनों का खुलासा करते हैं।

NWC का ग्लोबल वाइल्डलाइफ व्हिसलब्लोअर प्रोग्राम एक सुरक्षित और पूरी तरह से गोपनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जहां दुनियाभर के लोग वन्यजीव अपराध की सूचना दे सकते हैं, और फिर यह व्हिसलब्लोअर्स को उन वकीलों से जोड़ता है जो अमेरिकी प्राधिकारियों को उनकी रिपोर्टें सबमिट कराने और उपयुक्त अमेरिकी कानून(नों) के अंतर्गत पुरस्कारों के लिए आवेदन करने में मदद करते हैं।

प्रोग्राम के बारे में अधिक जानने और यह कि कैसे रिपोर्टें सबमिट करें और NWC की वाइल्डलाइफ अटॉर्नी रेफरल सर्विस (ARS) के माध्यम से किसी वकील से जुड़ें, कृपया देखें: www.whistleblowers.org/wildlife.

NWC के ग्लोबल वाइल्डलाइफ व्हिसलब्लोअर प्रोग्राम ने 2016 वाइल्डलाइफ क्राइम टेक चैलेंज, जो कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, और TRAFFIC की साझेदारी में USAID की एक पहल है, का ग्रैंड प्राइज़ जीता था। प्रोग्राम को द वाइल्डकैट फाउंडेशन से भी अच्छा-खासा अनुदान मिला।